

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 163 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 मार्च 2020 — फाल्गुन 21, शक 1941

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 7 मार्च 2020

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-15/2020/वा.क.(आब.)/पांच (7). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) तथा छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा प्ररूप एफ.एल. 10क ( राज्य के बाहर निर्मित विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) एवं एफ.एल.9(क) अनुज्ञप्ति के अधीन निर्मित विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) के भण्डारण एवं प्रदाय हेतु गोदाम अनुज्ञप्ति) की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस निम्नांकित सारणी में दर्शाए अनुसार दिनांक 01 अप्रैल 2020 से विनिर्दिष्ट करती है :-

## सारिणी

क्र.	अनुज्ञप्ति का प्रकार		वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस
1	2		3
1	एफ.एल.10क अनुज्ञप्ति	राज्य के बाहर निर्मित विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) एवं एफ.एल.9(क) अनुज्ञप्ति के अधीन निर्मित विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) के भण्डारण एवं प्रदाय हेतु गोदाम अनुज्ञप्ति	रुपये 2,00,000/- (प्रति गोदाम)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 7 मार्च 2020

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-15/2020/वा.क.(आब.)/पांच (8). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) तथा छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, प्रारूप एफ.एल. 10ख (राज्य में एफ.एल.9 अनुज्ञप्ति के अधीन बॉटलिंग की गई विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) के भण्डारण एवं प्रदाय हेतु गोदाम अनुज्ञप्ति) की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस निम्नांकित सारणी में दर्शाए अनुसार दिनांक 01 अप्रैल 2020 से विनिर्दिष्ट करती है :-

## सारिणी

क्र.	अनुज्ञप्ति का प्रकार		वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस
1	2		3
1	एफ.एल.10ख अनुज्ञप्ति	राज्य में एफ.एल.9 अनुज्ञप्ति के अधीन बॉटलिंग की गई विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) के भण्डारण एवं प्रदाय हेतु गोदाम अनुज्ञप्ति	रुपये 2,00,000/- (प्रति गोदाम)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 7 मार्च 2020

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-17/2020/वा.क.(आब.)/पांच (9). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) तथा उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

## संशोधन

- व्यवस्थापन नियम 3(ख) के स्थान के पर निम्नलिखित नियम 3(ख) प्रतिस्थापित किया जावे अर्थात् -

नियम 3 (ख) देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञप्ति एवम् अहाता अनुज्ञप्तियां इन नियमों के संलग्न प्रपत्र उपबंध क्रमशः (1) से (8) पर क्रमशः (1) "सी.एस.2(घघ)", (2) "सी.एस.2(घघ-कम्पोजिट)", (3) "सी.एस.2 (ग-अहाता)" तथा (4) "सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता)" तथा (5) "एफ.एल.1(घघ)", (6) "एफ.एल.1(घघ-कम्पोजिट)", (7) "एफ.एल.1(ख-अहाता)", (8) "एफ.एल.1(ख-कम्पोजिट अहाता)" में मंजूर किये जायेंगे।

- प्रारूप "सी.एस.2(घघ)" के स्थान पर, निम्नानुसार नवीन प्रारूप "सी.एस.2(घघ)" प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

प्ररूप  
सी.एस.-2 (घघ)  
नियम 3 (ख)

देशी मदिरा दुकान से मुहरबंद बोतलो में  
देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या ..... वर्ष ..... स्थान ..... जिला - .....  
वार्षिक लायसेंस फीस रुपये (अंको में) 10,000/- रुपये (अक्षरों में) दस हजार देशी मदिरा दुकान की अनुज्ञप्ति फीस,  
एक मुश्त पट्टाये जाने उपरान्त यह अनुज्ञप्ति जारी की जाती है।

परिसर का विवरण (चौहद्दी सहित)

उत्तर .....

दक्षिण .....

पूर्व .....

पश्चिम .....

लायसेंसधारी का नाम एवं पता :

1. नाम ..... पता .....

मुख्य विक्रयकर्ता एवं विक्रयकर्ताओं के नाम, पिता का नाम एवं पूर्ण पता :

- |    |            |         |          |
|----|------------|---------|----------|
| 1. | श्री ..... | आ. .... | नि. .... |
| 2. | श्री ..... | आ. .... | नि. .... |
| 3. | श्री ..... | आ. .... | नि. .... |
| 4. | श्री ..... | आ. .... | नि. .... |
| 5. | श्री ..... | आ. .... | नि. .... |
| 6. | श्री ..... | आ. .... | नि. .... |
| 7. | श्री ..... | आ. .... | नि. .... |
| 8. | श्री ..... | आ. .... | नि. .... |

देशी मदिरा की मसाला 25.0 यूपी. तथा सादी 50.0 यूपी. की मानक बोतल (750 मि.ली.) अद्धा (375 मि.ली.) एवं पाव (180 मि.ली.) के फुटकर बिक्री का लायसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लायसेंसधारक/धारकों को जिला ..... के अन्तर्गत ..... (स्थान) ..... तहसील के लिए दिनांक 01 अप्रैल ..... से 31 मार्च ..... हेतु जिसके लिए नियम-6 के अनुसार लायसेंस फीस एक मुश्तजमा कर दी गई है, लायसेंस प्रदान किया जाता है।

सामान्य और विशेष शर्तें

- देशी मदिरा के लिये निर्धारित ड्यूटी राशि का भुगतान कर देशी मदिरा का उठान संबंधित जिले हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निर्धारित भण्डारण भण्डागार से किया जा सकेगा।
- अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा निर्धारित ड्यूटी एवं अधिभार चुकाकर, संबंधित भण्डारण भण्डागार से अभिप्राप्त कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा प्रदाय हेतु जिला आबकारी कार्यालय में मांगपत्र पर्याप्त समय पूर्व प्रस्तुत करेगा। जिला कार्यालय से प्रदाय हेतु परिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त करेगा। ऐसा प्रदायकर्ता जिसे मांगपत्र दिया गया हो, यथासंभव शीघ्र देशी मदिरा का प्रदाय करने में असफल रहता है, तो अनुज्ञप्तिधारी सम्बद्ध उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी को सूचना देगा, जो ऐसा मांगपत्र प्राप्त होने पर यथासंभव शीघ्र मदिरा को प्रदाय के लिए व्यवस्था करेगा।
- मदिरा दुकानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों हेतु औपचारिकताओं की पूर्ति पश्चात् जिला आबकारी कार्यालय से नौकरनामा प्राप्त किया जाना होगा।
- अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिकृत प्लेसमेंट एजेन्सी के कर्मचारी शासन द्वारा निर्धारित फुटकर विक्रय मूल्य से कम अथवा अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा।
- अनुज्ञप्तिधारी दुकान के विक्रय काउंटर पर देशी मदिरा की वर्तमान निर्धारित फुटकर विक्रय दरें प्रदर्शित करते हुए एक सहज दृश्य मूल्य तालिका प्रदर्शित करेगा।

6. परिसर पर उपभोग के लिये मुहर बंद बोतलो में देशी मदिरा की बिक्री की अनुमति उसी गद्दी से होगी। परिसर का एक भाग अलग रखा जायेगा, जहाँ केवल परिसर में उपभोग के लिये अनुमति होगी। परिसर में उपभोग के लिये खुली हुई मदिरा नहीं परोसी जायेगी। इस हेतु पृथक से अहाता अनुज्ञप्ति प्राप्त किया जाना होगा।
7. विहित तीव्रता और मात्रा की देशी मदिरा की बिक्री मुहरबंद बोतलों—बोतल, अद्दा, पाव, में बिक्री की जायेगी और जिन पर आबकारी आयुक्त द्वारा सुरक्षा होलोग्राम, शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में लगे हुए होंगे।
8. अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिकृत प्लेसमेंट एजेन्सी के कर्मचारी विहित रजिस्टर में नियमित और सही दैनिक हिसाब रखेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए मांगा जाय, लेखा रजिस्टर प्रस्तुत किया जायेगा।
9. अनुज्ञप्तिधारी को देशी मदिरा की बिक्री को छोड़कर, जिसके लिए कि लायसेंस मंजूर किया गया है, परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
10. अनुज्ञप्त परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 18 दिसम्बर (गुरु घासीदास जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस), होली व मोहरम और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के लिए अधिसूचित किया जाये, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों 12:00 बजे सुबह से 9:00 बजे रात्रि तक खुला रखेगा, परंतु कानून व्यवस्था संघारित करने की दृष्टि से जिला कलेक्टर आवश्यकता के अनुरूप मदिरा दुकान खुलने के निर्धारित समय दोपहर 12:00 बजे के एक घंटे पूर्व अर्थात् 11:00 बजे तथा बंद किये जाने के निर्धारित समय रात्रि 9:00 बजे के एक घंटे के पश्चात् अर्थात् रात्रि 10:00 बजे तक दुकान खुली रखने का आदेश जारी कर सकेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान बंद करने के आदेश दे सकता है। उक्त तारीखों/दिनों में दुकानों की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
11. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिकृत प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी देशी मदिरा के सम्पूर्ण स्टॉक का भण्डारण केवल लायसेंस परिसर में ही करेंगे।
12. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त परिसर में नियमानुसार एवं निर्देशानुसार अहाता संचालन की व्यवस्था करावेगा।
13. प्लेसमेंट एजेंसी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में नियोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और छुआछुत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो।
14. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी किसी भी व्यक्ति को निर्धारित मात्रा से अधिक देशी मदिरा नहीं बेचेगा।
15. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को मदिरा विक्रय नहीं की जायेगी, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या पदधारी, जो वर्दी में हो।
16. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों या उनके लेबिलों, सुरक्षा होलोग्राम/चोरीरोधक ढक्कनों या मुहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना पूर्ण रूप से निषिद्ध है।
17. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी अनुज्ञप्त परिसर में कोई भी रंग सुगंधि, होलोग्राम, कैप्सूल, मुहर या कोई हानिकर सामग्री नहीं रखेगा।
18. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी के लिए दुकान की गद्दी पर या उस स्थान से 5 फीट के भीतर जहाँ विक्रय के लिए देशी मदिरा भण्डारित की गई है, पानी का रखना पूर्ण रूप से निषिद्ध है।
19. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी परिसर की समुचित देख-रेख और सफाई के लिए, उसमें नालियों आदि का कृमिनाशक पदार्थ से साफ किया जाना सम्मिलित है, उत्तरदायी होगा।
20. पर्यावरण एवं साफ-सफाई को ध्यान में रखते हुए देशी मदिरा दुकान के अहाता में प्रतिबंधित डिस्पोजेबल ग्लास एवं पानी के पारुच का उपयोग/विक्रय प्रतिषिद्ध रहेगा।
21. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी और उसके परिवार के द्वारा उस परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग, आवास के स्थान के रूप में नहीं किया जायेगा।
22. अनुज्ञप्तिधारी/प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या फुसलाना पूर्ण रूप से निषिद्ध है, धूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी पूर्ण रूप से निषिद्ध है।
23. अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञापन की समाप्ति पर अतिशेष स्टॉक के निपटारे के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा जिसे छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अधीन निर्मित सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक 25 के अंतर्गत निपटारा किया जायेगा।



24. अनुज्ञप्तिधारी/प्लेसमेंट एजेंसी/प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाये गये नियम (सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक 2 क एवं 2 ख को छोड़कर) और अनुज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं निर्बन्धनों तथा राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/कलेक्टर/उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा सूचित किन्हीं विशेष शर्तों/आदेशों/निर्देशों से आबद्धकर होगा।

तारीख : .....

अनुज्ञापन प्राधिकारी

जिला : .....

3. प्रारूप "सी.एस.2(घघ)" के पश्चात्, निम्नानुसार नवीन प्रारूप "सी.एस.2(घघ-कम्पोजिट)", प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

### प्रारूप

सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट)

### नियम 3 (ख)

देशी/विदेशी मदिरा दुकान से मुहरबंद बोतलों में  
देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या ..... वर्ष ..... स्थान ..... जिला - .....  
वार्षिक लायसेंस फीस रुपये (अंको में) 20,000/- रुपये (अक्षरों में) बीस हजार देशी मदिरा-कम्पोजिट दुकान की अनुज्ञप्ति फीस, एक मुश्त पटायें जाने उपरान्त यह अनुज्ञप्ति जारी की जाती है।

परिसर का विवरण (चौहद्दी सहित)

उत्तर .....

दक्षिण .....

पूर्व .....

पश्चिम .....

लायसेंसधारी का नाम एवं पता :

1. नाम ..... पता .....

मुख्य विक्रयकर्ता एवं विक्रयकर्ताओं के नाम, पिता का नाम एवं पूर्ण पता :

- |    |            |         |          |
|----|------------|---------|----------|
| 1. | श्री ..... | आ. .... | नि. .... |
| 2. | श्री ..... | आ. .... | नि. .... |
| 3. | श्री ..... | आ. .... | नि. .... |
| 4. | श्री ..... | आ. .... | नि. .... |
| 5. | श्री ..... | आ. .... | नि. .... |
| 6. | श्री ..... | आ. .... | नि. .... |
| 7. | श्री ..... | आ. .... | नि. .... |
| 8. | श्री ..... | आ. .... | नि. .... |

देशी मदिरा की मसाला 25.0 यू.पी. तथा सादी 50.0 यू.पी. की मानक बोतल (750 मि.ली.) अद्धा (375 मि.ली.) एवं पाव (180 मि.ली.) एवं विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) नियत मानक बोतलों के फुटकर बिक्री का लायसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लायसेंसधारक/धारकों को जिला ..... के अन्तर्गत ..... (स्थान) ..... तहसील के लिए दिनांक 01 अप्रैल ..... से 31 मार्च ..... हेतु जिसके लिए नियम-6 के अनुसार लायसेंस फीस एक मुश्त जमा कर दी गई है, लायसेंस प्रदान किया जाता है।

## सामान्य और विशेष शर्तें

1. (क) देशी मदिरा के लिये निर्धारित ड्यूटी राशि एवं अधिभार का भुगतान कर देशी मदिरा का उठान संबंधित जिले हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के निर्धारित भण्डारण भण्डागार से किया जा सकेगा।  
(ख) अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा के लिए निर्धारित ड्यूटी एवं अधिभार चुकाकर, संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के अधीन एफ.एल.10 क एवं एफ.एल.10 ख अनुज्ञप्तिधारी से अभिप्राप्त कर सकेगा।
2. अनुज्ञप्तिधारी देशी/विदेशी मदिरा प्रदाय हेतु जिला आबकारी कार्यालय में मांगपत्र पर्याप्त समय पूर्व प्रस्तुत करेगा। जिला कार्यालय से प्रदाय हेतु परिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त करेगा। ऐसा प्रदायकर्ता जिसे मांगपत्र दिया गया हो, यथासंभव शीघ्र देशी/विदेशी मदिरा का प्रदाय करने में असफल रहता है, तो अनुज्ञप्तिधारी सम्बद्ध उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी को सूचना देगा, जो ऐसा मांगपत्र प्राप्त होने पर यथासंभव शीघ्र मदिरा को प्रदाय के लिए व्यवस्था करेगा।
3. मदिरा दुकानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों हेतु औपचारिकताओं की पूर्ति पश्चात् जिला आबकारी कार्यालय से नौकरनामा प्राप्त किया जाना होगा।
4. अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिकृत प्लेसमेंट एजेन्सी के कर्मचारी शासन द्वारा निर्धारित फुटकर विक्रय मूल्य से कम अथवा अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा।
5. अनुज्ञप्तिधारी दुकान के विक्रय काउंटर पर देशी/विदेशी मदिरा की वर्तमान निर्धारित फुटकर विक्रय दरें प्रदर्शित करते हुए एक सहज दृश्य मूल्य तालिका प्रदर्शित करेगा।
6. परिसर पर उपभोग के लिये मुहर बंद बोतलों में देशी/विदेशी मदिरा की बिक्री की अनुमति उसी गद्दी से होगी। परिसर का एक भाग अलग रखा जायेगा, जहाँ केवल परिसर में उपभोग के लिये अनुमति होगी। परिसर में उपभोग के लिये खुली हुई मदिरा नहीं परोसी जायेगी। इस हेतु पृथक से अहाता अनुज्ञप्ति प्राप्त किया जाना होगा।
7. विहित तीव्रता और मात्रा की देशी/विदेशी मदिरा की बिक्री मुहरबंद बोतलों-बोतल, अद्धा, पाव, में बिक्री की जायेगी और जिन पर आबकारी आयुक्त द्वारा सुरक्षा होलोग्राम, शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में लगे हुए होंगे।
8. अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिकृत प्लेसमेंट एजेन्सी के कर्मचारी विहित रजिस्टर में देशी/विदेशी मदिरा का नियमित और सही दैनिक हिसाब रखेगा। विदेशी मदिरा हेतु विहित रजिस्टर में नियमित और सही दैनिक हिसाब ब्राण्डवाइज/लेबलवाइज (नामपत्रवार) रखेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए मांगा जाय, लेखा रजिस्टर प्रस्तुत किया जायेगा।
9. अनुज्ञप्तिधारी को देशी/विदेशी मदिरा की बिक्री को छोड़कर, जिसके लिए कि लायसेंस मंजूर किया गया है, परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
10. अनुज्ञप्त परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 18 दिसम्बर (गुरु घासीदास जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस), होली व मोहरम और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के लिए अधिसूचित किया जाये, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों 12:00 बजे सुबह से 9:00 बजे रात्रि तक खुला रखेगा, परंतु कानून व्यवस्था संधारित करने की दृष्टि से जिला कलेक्टर आवश्यकता के अनुरूप मदिरा दुकान खुलने के निर्धारित समय दोपहर 12:00 बजे के एक घंटे पूर्व अर्थात् 11:00 बजे तथा बंद किये जाने के निर्धारित समय रात्रि 9:00 बजे के एक घंटे के पश्चात् अर्थात् रात्रि 10:00 बजे तक दुकान खुली रखने का आदेश जारी कर सकेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान बंद करने के आदेश दे सकता है। उक्त तारीखों/दिनों में दुकानों की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
11. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिकृत प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी देशी/विदेशी मदिरा के सम्पूर्ण स्टॉक का भण्डारण केवल लायसेंस परिसर में ही करेंगे।
12. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त परिसर में नियमानुसार एवं निर्देशानुसार अहाता संचालन की व्यवस्था करावेगा।
13. प्लेसमेंट एजेंसी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में नियोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और छुआछुत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो।
14. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी किसी भी व्यक्ति को निर्धारित मात्रा से अधिक देशी/विदेशी मदिरा नहीं बेचेगा।
15. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को मदिरा विक्रय नहीं की जायेगी, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या पदधारी, जो वर्दी में हो।

16. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों या उनके लेबिलों, सुरक्षा होलोग्राम/चोरीरोधक ढक्कनों या मुहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना पूर्ण रूप से निषिद्ध है।
17. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी अनुज्ञप्त परिसर में कोई भी रंग सुगंधि, होलोग्राम, कैप्सूल, मुहर या कोई हानिकर सामग्री नहीं रखेगा।
18. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी के लिए दुकान की गद्दी पर या उस स्थान से 5 फीट के भीतर जहां विक्रय के लिए देशी/विदेशी मदिरा भण्डारित की गई है, पानी का रखना पूर्ण रूप से निषिद्ध है।
19. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी परिसर की समुचित देख-रेख और सफाई के लिए, उसमें नालियों आदि का कृमिनाशक पदार्थ से साफ किया जाना सम्मिलित है, उत्तरदायी होगा।
20. पर्यावरण एवं साफ-सफाई को ध्यान में रखते हुए देशी/विदेशी मदिरा दुकान के अहाता में प्रतिबंधित डिस्पोजेबल ग्लास एवं पानी के पाऊच का उपयोग/विक्रय प्रतिषिद्ध रहेगा।
21. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी और उसके परिवार के द्वारा उस परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग, आवास के स्थान के रूप में नहीं किया जायेगा।
22. अनुज्ञप्तिधारी/प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या फुसलाना पूर्ण रूप से निषिद्ध है, धूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी पूर्ण रूप से निषिद्ध है।
23. अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञापन की समाप्ति पर अतिशेष स्टॉक के निपटारे के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा जिसे छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अधीन निर्मित सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक 25 के अंतर्गत देशी मदिरा का एवं छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उप नियम (6) के अंतर्गत विदेशी मदिरा का निपटारा किया जायेगा।
24. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए एफ.एल. 3, एफ.एल.3(क) एफ.एल. 4, एफ.एल. 4 (क) अथवा एफ.एल. 5/एफ.एल.5(क) अनुज्ञप्तिधारी को भी विदेशी मदिरा विक्रय करेगा।  
किन्तु देशी/विदेशी मदिरा सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट) फुटकर दुकान से एफ.एल.3, एफ.एल.3(क), एफ.एल. 4 एवं एफ.एल. 4 (क) अनुज्ञप्तिधारियों के लिए लैडिंग प्राइज रुपये ...../- प्रतिपेटी तक के विदेशी मदिरा स्प्रिट का परिवहन प्रतिषिद्ध रहेगा।
25. अनुज्ञप्तिधारी/प्लेसमेंट एजेंसी/प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाये गये नियम (सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक 2 क एवं 2 ख को छोड़कर) और अनुज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं निर्बन्धनों तथा राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/कलेक्टर/उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा सूचित किन्ही विशेष शर्तों/आदेशों/निर्देशों से आबद्धकर होगा।

तारीख : .....  
जिला : .....

अनुज्ञापन प्राधिकारी

4. प्रारूप "सी.एस.2(घघ-कम्पोजिट)" के पश्चात्, निम्नानुसार नवीन प्रारूप "सी.एस.2 (ग-अहाता)", प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

प्रारूप  
नियम-3(ख)

सी.एस.2.(ग-अहाता)

अनुज्ञप्ति संख्या ..... वर्ष ..... स्थान ..... जिला - .....  
वार्षिक लायसेंस फीस रुपये ..... सी.एस.2.(ग-अहाता) की अनुज्ञप्ति फीस, एक मुश्त पटाये जाने उपरान्त यह अनुज्ञप्ति जारी की जाती है ।

शर्तें

- (1) अनुज्ञप्तिधारक, अनुज्ञप्ति सी.एस.2 (घघ) में उल्लेखित अनुज्ञप्ति परिसर के संलग्न अहाते में देशी मदिरा का उपभोग अनुज्ञात करेगा।
- (2) अनुज्ञप्तिधारक, अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी भी परिस्थिति में अनुज्ञप्ति परिसर में परिवर्तन नहीं करेगा।

- (3) अनुज्ञप्तिधारक, अहाते में केवल उसी देशी मदिरा का उपभोग अनुज्ञात करेगा जो कि ..... स्थित मदिरा दुकान से, जिससे कि अहाता संलग्न है, विक्रय की गई है।
- (4) अनुज्ञप्तिधारक, विदेशी मदिरा या मादक द्रव्य का अनुज्ञप्त परिसर में उपभोग अनुज्ञात नहीं करेगा।
- (5) अनुज्ञप्तिधारक, इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्त परिसर में न तो विदेशी मदिरा का स्टॉक ही करेगा और न ही विक्रय करेगा।
- (6) अनुज्ञप्तिधारक, उपभोक्ताओं को युक्तियुक्त सुविधाएँ यथा—खानपान, एयरकूल्ड/एयर कंडीशन तथा स्वच्छ वातावरण आदि सुविधाएँ प्रदान करेगा। इस हेतु वह अन्य विभागों से आवश्यक लायसेंस जैसे (FSSAI) आदि प्राप्त करेगा। किन्तु गाना, नाचना, कोलाहल मचाना या उच्छृंखल व्यवहार अनुज्ञात नहीं करेगा।
- (6)(क) पर्यावरण एवं साफ-सफाई को ध्यान में रखते हुए अहातों में प्रतिबंधित डिस्पोजेबल ग्लास एवं पानी के पाऊच का उपयोग/विक्रय प्रतिषिद्ध रहेगा।
- (7) उस दशा में जब सी.एस.2(घघ) अनुज्ञप्ति, जिससे इस अनुज्ञप्ति के अधीन अहाता संलग्न है, कलेक्टर द्वारा निलंबित, रद्द या प्रत्याहरित कर दी जाती है तो यह अहाता अनुज्ञप्ति भी तत्काल, यथास्थिति निलंबित, रद्द या प्रत्याहरित कर दी गई समझी जाएगी।
- (8) अनुज्ञप्तिधारक, संबंधित मदिरा दुकान के खुलने एवं बंद होने के मध्य ही अहाता का संचालन करेगा तथा ऐसे समस्त दिवसों में अहाता का संचालन बंद रखेगा, जैसा कि अनुज्ञप्ति सी.एस.2 (घघ) की शर्त क्रमांक 8 में उल्लेखित है।
- (9) अनुज्ञप्तिधारक, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और छुआछुत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो।
- (10) अनुज्ञप्तिधारक, सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त क्रमांक दो, तेरह, सत्ताईस तथा तीस को छोड़कर अन्य सभी शर्तों द्वारा आबद्ध होगा।
- (11) इस अनुज्ञप्ति की किसी शर्त, या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के किसी उपबन्ध अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए किस आदेश के उल्लंघन पर यह अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित अथवा रद्द की जा सकेगी।

तारीख — .....

अनुज्ञापन प्राधिकारी

जिला— .....

5. प्रारूप “सी.एस.2 (ग-अहाता)” के पश्चात् निम्नानुसार नवीन प्रारूप “सी.एस.2(ग-कम्पोजिट अहाता)” प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

**प्रारूप  
नियम-3(ख)**

**सी.एस.2.(ग-कम्पोजिट अहाता)**

अनुज्ञप्ति संख्या ..... वर्ष ..... स्थान ..... जिला — .....  
वार्षिक लायसेंस फीस रुपये ..... सी.एस.2.(ग-कम्पोजिट अहाता) की अनुज्ञप्ति फीस, एक मुश्त पटाये जाने उपरान्त यह अनुज्ञप्ति जारी की जाती है।

**शर्तें**

- (1) अनुज्ञप्तिधारक, अनुज्ञप्ति सी.एस.2 (घघ-कम्पोजिट) में उल्लेखित अनुज्ञप्ति परिसर के संलग्न अहाते में देशी एवं विदेशी मदिरा का उपभोग अनुज्ञात करेगा।
- (2) अनुज्ञप्तिधारक, अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी भी परिस्थिति में अनुज्ञप्ति परिसर में परिवर्तन नहीं करेगा।
- (3) अनुज्ञप्तिधारक, अहाते में उसी देशी एवं विदेशी मदिरा का उपभोग अनुज्ञात करेगा जो कि ..... स्थित मदिरा दुकान से, जिससे कि अहाता संलग्न है, विक्रय की गई है।
- (4) अनुज्ञप्तिधारक, इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्त परिसर में न तो देशी/विदेशी मदिरा का स्टॉक ही करेगा और न ही विक्रय करेगा।
- (5) अनुज्ञप्तिधारक, उपभोक्ताओं को युक्तियुक्त सुविधाएँ यथा—खानपान, एयरकूल्ड/एयर कंडीशन तथा स्वच्छ वातावरण आदि सुविधाएँ प्रदान करेगा। इस हेतु वह अन्य विभागों से आवश्यक लायसेंस जैसे (FSSAI) आदि प्राप्त करेगा। किन्तु गाना, नाचना, कोलाहल मचाना या उच्छृंखल व्यवहार अनुज्ञात नहीं करेगा।

- (6)(क) पर्यावरण एवं साफ-सफाई को ध्यान में रखते हुए अहातों में प्रतिबंधित डिस्पोजेबल ग्लास एवं पानी के पाऊच का उपयोग/विक्रय प्रतिषिद्ध रहेगा।
- (7) उस दशा में जब सी.एस.2(घघ-कम्पोजिट) अनुज्ञप्ति, जिससे इस अनुज्ञप्ति के अधीन अहाता संलग्न है, कलेक्टर द्वारा निलंबित, रद्द या प्रत्याहरित कर दी जाती है तो यह अहाता अनुज्ञप्ति भी तत्काल, यथास्थिति निलंबित, रद्द या प्रत्याहरित कर दी गई समझी जाएगी।
- (8) अनुज्ञप्तिधारक, संबंधित मदिरा दुकान के खुलने एवं बंद होने के मध्य ही अहाता का संचालन करेगा तथा ऐसे समस्त दिवसों में अहाता का संचालन बंद रखेगा, जैसा कि अनुज्ञप्ति सी.एस.2 (घघ-कम्पोजिट) की शर्त क्रमांक 9 में उल्लेखित है।
- (9) अनुज्ञप्तिधारक, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और छुआछूत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो।
- (10) अनुज्ञप्तिधारक, सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त क्रमांक दो, तेरह, सत्ताईस तथा तीस को छोड़कर अन्य सभी शर्तों द्वारा आबद्ध होगा।
- (11) इस अनुज्ञप्ति की किसी शर्त, या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के किसी उपबन्ध अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए किस आदेश के उल्लंघन पर यह अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित अथवा रद्द की जा सकेगी।

तारीख -.....  
जिला-.....

अनुज्ञापन प्राधिकारी

6. प्रारूप "एफ.एल.-1(घघ)" के स्थान पर, निम्नानुसार नवीन प्रारूप "एफ.एल.-1(घघ)" प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

प्रारूप  
एफ.एल. -1 (घघ)

नियम 3 (ख)

विदेशी मदिरा दुकान से मुहरबंद बोतलो में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री  
हेतु अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या ..... वर्ष ..... स्थान ..... जिला - .....  
वार्षिक लायसेंस फीस रुपये (अंको में) 10,000/- रुपये (अक्षरों में) दस हजार विदेशी मदिरा दुकान की अनुज्ञप्ति फीस  
एक मुश्त पटाई जाने पर अनुज्ञप्ति जारी।  
परिसर का विवरण (चौहद्दी सहित)

उत्तर .....  
दक्षिण .....  
पूर्व .....  
पश्चिम .....

लायसेंसधारी का नाम का नाम एवं पता :

1. नाम ..... पता. ....

मुख्य विक्रयकर्ता एवं विक्रयकर्ताओं के नाम, पिता का नाम एवं पूर्ण पता :

- |               |         |          |
|---------------|---------|----------|
| 1. श्री ..... | आ. .... | नि. .... |
| 2. श्री ..... | आ. .... | नि. .... |
| 3. श्री ..... | आ. .... | नि. .... |
| 4. श्री ..... | आ. .... | नि. .... |
| 5. श्री ..... | आ. .... | नि. .... |
| 6. श्री ..... | आ. .... | नि. .... |
| 7. श्री ..... | आ. .... | नि. .... |
| 8. श्री ..... | आ. .... | नि. .... |

परिसर से बाहर उपयोग के लिये मानक बोतल (स्प्रिट), (750 मि.ली.) अद्धा (375 मि.ली.) एवं पाव (180 मि.ली.) तथा माल्ट हेतु नियत मानक क्षमता अनुसार बोतल की फुटकर बिक्री का लायसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लायसेंसधारक/धारकों को जिला ..... के अन्तर्गत ..... (स्थान) ..... तहसील के लिए दिनांक 01 अप्रैल ..... से 31 मार्च ..... हेतु जिसके लिए नियम-6 के अनुसार लायसेंस फीस एकमु त जमा कर दी गई है, लायसेंस प्रदान किया जाता है।

### सामान्य और विशेष शर्तें

1. अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा निर्धारित ड्यूटी एवं अधिभार चुकाकर, संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के अधीन एफ.एल.10 क एवं एफ.एल.10 ख अनुज्ञप्तिधारी से अभिप्राप्त कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा प्रदाय हेतु जिला आबकारी कार्यालय में मांगपत्र पर्याप्त समय पूर्व प्रस्तुत करेगा। जिला कार्यालय से प्रदाय हेतु परिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त करेगा।
2. अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिकृत प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी, शासन द्वारा निर्धारित फुटकर मूल्य से कम मूल्य अथवा अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा।
3. मदिरा दुकानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों हेतु औपचारिकताओं की पूर्ति पश्चात् जिला आबकारी कार्यालय से नौकरनामा प्राप्त किया जाना होगा।
4. अनुज्ञप्त परिसर पर बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी, कोई भी मदिरा परिसर पर उपभोग नहीं की जायेगी।
- 4क. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियमानुसार अहाता अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की दशा में अनुज्ञप्त परिसर में मदिरा उपभोग की अनुमति होगी।
5. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी द्वारा किसी भी व्यक्ति को 180 मि.ली. के पाव से कम मात्रा की बिक्री नहीं की जायेगी। 21 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को कोई बिक्री नहीं की जायेगी।
6. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी द्वारा विहित तीव्रता और मात्रा की विदेशी मदिरा की मुहरबंद बोतलों अर्थात् बोतल, अद्धा, पाव, में बिक्री की जायेगी और जिन पर शुल्क के भुगतान प्रमाण के रूप में सुरक्षा होलोग्राम लगे हुए होंगे।
7. अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिकृत प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी द्वारा विहित रजिस्टर में नियमित और सही दैनिक हिसाब नामपत्र वार (लेबल वाईज) रखेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए मांगा जाय, लेखा रजिस्टर प्रस्तुत किया जायेगा।
8. अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिकृत प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी द्वारा विदेशी मदिरा के संपूर्ण स्टॉक का भण्डारण केवल अनुज्ञप्त परिसर में ही करेगा।
- (8-क) केवल शहरी क्षेत्रों में स्थित विदेशी मदिरा दुकानों में विदेशी मदिरा के भण्डारकरण के लिए दुकान में अनुमोदित परिसर में पर्याप्त स्थान न होने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी की मांग पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा आवश्यक जॉचोपरान्त अनुज्ञप्तिधारी को दुकान के अनुमोदित परिसर से 100 मीटर की परिधि में स्थित गोदाम में विदेशी मदिरा के भण्डारकरण हेतु अनुज्ञा दे सकेगा। ऐसे गोदाम का, जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाए, विवरण अनुज्ञप्ति में प्रविष्टि किया जाएगा।
- (8-ख) यदि शहरी क्षेत्रों में स्थित विदेशी मदिरा दुकानों के अनुज्ञप्तिधारी को शर्त क्रमांक 7-क के अधीन अनुमोदित दुकान परिसर के साथ-साथ किसी गोदाम में विदेशी मदिरा के भण्डारकरण की अनुज्ञा दी गई हो, तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसे गोदाम में भण्डारित समस्त विदेशी मदिरा का नामपत्र वार (लेबल वाईज) दिन प्रतिदिन का सही हिसाब रखेगा। विदेशी मदिरा का गोदाम से अनुज्ञप्तिधारी की दुकान के परिसर तक परिवहन, प्राधिकृत अधिकारी, जो आबकारी उप-निरीक्षक के पद से भिन्न पद श्रेणी का न हो, द्वारा जारी किये गये पास के द्वारा किया जाएगा। गोदाम तथा दुकान के बीच विदेशी मदिरा के अंतरण को दुकान तथा गोदाम में रखी गई स्टॉक-पुस्तिकाओं में स्पष्टतः दर्शित किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा का गोदाम से विक्रय नहीं करेगा।
9. अनुज्ञप्तिधारी दुकान के विक्रय काउंटर पर विदेशी मदिरा की वर्तमान निर्धारित फुटकर विक्रय दरें प्रदर्शित करते हुए एक सहज दृश्य मूल्य तालिका प्रदर्शित करेगा।
10. प्लेसमेंट एजेंसी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में नियोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और छुआछुत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या आबकारी बकाया/शासकीय राशि देय हो या महिला हो।
11. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी किसी भी व्यक्ति को निर्धारित मात्रा से अधिक विदेशी मदिरा नहीं बेचेगा।

12. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को मदिरा विक्रय नहीं की जावेगी, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या पदधारी, जो वर्दी में हो।
13. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी द्वारा किसी भी दशा में बोटलों या उनके लेबलो, सुरक्षा होलोग्राम/चोरीरोधक ढक्कनों या मुहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना पूर्ण रूप से निषिद्ध है।
14. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी अनुज्ञप्त परिसर में कोई भी रंग सुगंधि, होलोग्राम, कैप्सूल, मुहर या कोई हानिकर सामग्री नहीं रखेगा।
15. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी और उसके परिवार के द्वारा उस परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग, आवास के स्थान के रूप में नहीं किया जायेगा।
16. पर्यावरण एवं साफ-सफाई को ध्यान में रखते हुए विदेशी मदिरा दुकान के अहाता में प्रतिबंधित डिस्पोजेबल ग्लास एवं पानी के पाऊच का उपयोग/विक्रय प्रतिषिद्ध रहेगा।
17. अनुज्ञप्तिधारी/प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी द्वारा मदिरा बिक्री बढ़ाने के लिए खदीददारों को प्रलोभन देना या फुसलाना पूर्ण रूप से निषिद्ध है, द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी पूर्ण रूप से निषिद्ध है।
18. अनुज्ञप्त परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 18 दिसम्बर (गुरु घासीदास जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस), होली व मोहरम और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के लिए अधिसूचित किया जाये, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों 12:00 बजे सुबह से 9:00 बजे रात्रि तक खुला रखेगा, परंतु कानून व्यवस्था संधारित करने की दृष्टि से जिला कलेक्टर आवश्यकता के अनुरूप मदिरा दुकान खुलने के निर्धारित समय दोपहर 12:00 बजे के एक घंटे पूर्व अर्थात् 11:00 बजे तथा बंद किये जाने के निर्धारित समय रात्रि 9:00 बजे के एक घंटे के पश्चात् अर्थात् रात्रि 10:00 बजे तक दुकान खुली रखने का आदेश जारी कर सकेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान बंद करने के आदेश दे सकता है। उक्त तारीखों/दिनों में दुकानों की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
19. विदेशी मदिरा को छोड़कर जिसके लिए कि लायसेंस दिया गया है, प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी द्वारा अनुज्ञप्त परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
20. अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञापन की समाप्ति पर अतिशेष स्टॉक के निपटारे के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उप नियम (6) के अनुसार किया जायेगा।
21. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए एफ.एल. 3, एफ.एल.3(क) एफ.एल. 4, एफ.एल. 4 (क) अथवा एफ.एल. 5/एफ.एल.5(क) अनुज्ञप्तिधारी को भी विदेशी मदिरा विक्रय करेगा।  
किन्तु विदेशी मदिरा एफ.एल. 1(घघ) फुटकर दुकान से एफ.एल.3, एफ.एल.3(क), एफ.एल. 4 एवं एफ.एल. 4 (क) अनुज्ञप्तिधारियों के लिए लैडिंग प्राइज रुपये ...../— प्रतिपेटी तक के विदेशी मदिरा स्प्रिट का परिवहन प्रतिषिद्ध रहेगा।
22. अनुज्ञप्तिधारी/प्लेसमेंट एजेंसी/प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाये गये नियम (सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक 2 क एवं 2 ख को छोड़कर) और अनुज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं निर्बन्धनों तथा राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/कलेक्टर/उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा सूचित किन्हीं शर्तों/आदेशों/निर्देशों से आबद्ध कर होगा।

तारीख : .....  
जिला : .....

अनुज्ञापन प्राधिकारी

7. प्रारूप "एफ.एल.-1(घघ)" के पश्चात् निम्नानुसार नवीन प्रारूप "एफ.एल.-1(घघ-कम्पोजिट)" प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

प्रारूप  
एल.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट)

### नियम 3 (ख)

विदेशी/देशी मदिरा दुकान से मुहरबंद बोटलो में  
विदेशी/देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या ..... वर्ष ..... स्थान ..... जिला - .....  
वार्षिक लायसेंस फीस रुपये (अंको में) 20,000/— रुपये (अक्षरों में) बीस हजार विदेशी/देशी मदिरा-कम्पोजिट दुकान की अनुज्ञप्ति फीस, एक मुश्त पटाये जाने उपरान्त यह अनुज्ञप्ति जारी की जाती है।



परिसर का विवरण (चौहद्दी सहित)

उत्तर .....

दक्षिण .....

पूर्व .....

पश्चिम .....

लायसेंसधारी का नाम एवं पता :

1. नाम ..... पता .....

मुख्य विक्रयकर्ता एवं विक्रयकर्ताओं के नाम, पिता का नाम एवं पूर्ण पता :

1. श्री ..... आ. .... नि. ....
2. श्री ..... आ. .... नि. ....
3. श्री ..... आ. .... नि. ....
4. श्री ..... आ. .... नि. ....
5. श्री ..... आ. .... नि. ....
6. श्री ..... आ. .... नि. ....
7. श्री ..... आ. .... नि. ....
8. श्री ..... आ. .... नि. ....

विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) का परिसर से बाहर उपयोग के लिये मानक बोतलों में एवं देशी मदिरा की मसाला 25.0 यू.पी. तथा सादी 50.0 यू.पी. के फुटकर बिक्री का लायसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लायसेंसधारक/धारकों को जिला ..... के अन्तर्गत ..... (स्थान) ..... तहसील के लिए दिनांक 01 अप्रैल ..... से 31 मार्च ..... हेतु जिसके लिए नियम-6 के अनुसार लायसेंस फीस एक मुश्त जमा कर दी गई है, लायसेंस प्रदान किया जाता है।

### सामान्य और विशेष शर्तें

1. (क) अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा के लिए निर्धारित ड्यूटी एवं अधिभार चुकाकर, संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के अधीन एफ.एल.10 क एवं एफ.एल.10ख अनुज्ञप्तिधारी से अभिप्राप्त कर सकेगा।  
(ख) देशी मदिरा के लिये निर्धारित ड्यूटी राशि एवं अधिभार का भुगतान कर देशी मदिरा का उठान संबंधित जिले हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के निर्धारित भण्डारण भण्डागार से किया जा सकेगा।
2. अनुज्ञप्तिधारी विदेशी/देशी मदिरा प्रदाय हेतु जिला आबकारी कार्यालय में मांगपत्र पर्याप्त समय पूर्व प्रस्तुत करेगा। जिला कार्यालय से प्रदाय हेतु परिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त करेगा। ऐसा प्रदायकर्ता जिसे मांगपत्र दिया गया हो, यथासंभव शीघ्र विदेशी/देशी मदिरा का प्रदाय करने में असफल रहता है, तो अनुज्ञप्तिधारी सम्बद्ध उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी को सूचना देगा, जो ऐसा मांगपत्र प्राप्त होने पर यथासंभव शीघ्र मदिरा को प्रदाय के लिए व्यवस्था करेगा।
3. मदिरा दुकानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों हेतु औपचारिकताओं की पूर्ति पश्चात् जिला आबकारी कार्यालय से नौकरनामा प्राप्त किया जाना होगा।
4. अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिकृत प्लेसमेंट एजेन्सी के कर्मचारी शासन द्वारा निर्धारित फुटकर विक्रय मूल्य से कम अथवा अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा।
5. अनुज्ञप्तिधारी दुकान के विक्रय काउंटर पर विदेशी/देशी मदिरा की वर्तमान निर्धारित फुटकर विक्रय दरें प्रदर्शित करते हुए एक सहज दृश्य मूल्य तालिका प्रदर्शित करेगा।
6. परिसर पर उपभोग के लिये मुहर बंद बोतलो में विदेशी/देशी मदिरा की बिक्री की अनुमति उसी गद्दी से होगी। परिसर का एक भाग अलग रखा जायेगा, जहाँ केवल परिसर में उपभोग के लिये अनुमति होगी। परिसर में उपभोग के लिये खुली हुई मदिरा नहीं परोसी जायेगी। इस हेतु पृथक से अहाता अनुज्ञप्ति प्राप्त किया जाना होगा।
7. विहित तीव्रता और मात्रा की विदेशी/देशी मदिरा की बिक्री मुहरबंद बोतलों बोतल, अद्धा, पाव, में बिक्री की जायेगी और जिन पर आबकारी आयुक्त द्वारा सुरक्षा होलोग्राम, शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में लगे हुए होंगे।



8. अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा अधिकृत प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारी विहित रजिस्टर में विदेशी/देशी मदिरा का नियमित और सही दैनिक हिसाब रखेगा। विदेशी मदिरा हेतु विहित रजिस्टर में नियमित और सही दैनिक हिसाब ब्राण्डवाइज/लेबलवाइज(नामपत्रवार) रखेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए मांगा जाय, लेखा रजिस्टर प्रस्तुत किया जायेगा।
9. अनुज्ञप्तिधारी को विदेशी/देशी मदिरा की बिक्री को छोड़कर, जिसके लिए कि लायसेंस मंजूर किया गया है, परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
10. अनुज्ञाप्त परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 18 दिसम्बर (गुरु घासीदास जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस), होली व मोहर्रम और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के लिए अधिसूचित किया जाये, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों 12:00 बजे सुबह से 9:00 बजे रात्रि तक खुला रखेगा, परंतु कानून व्यवस्था संधारित करने की दृष्टि से जिला कलेक्टर आवश्यकता के अनुरूप मदिरा दुकान खुलने के निर्धारित समय दोपहर 12:00 बजे के एक घंटे पूर्व अर्थात् 11:00 बजे तथा बंद किये जाने के निर्धारित समय रात्रि 9:00 बजे के एक घंटे के पश्चात् अर्थात् रात्रि 10:00 बजे तक दुकान खुली रखने का आदेश जारी कर सकेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान बंद करने के आदेश दे सकता है। उक्त तारीखों/दिनों में दुकानों की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
11. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिकृत प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी विदेशी/देशी मदिरा के सम्पूर्ण स्टॉक का भण्डारण केवल लायसेंस परिसर में ही करेंगे।
- (11-क) केवल शहरी क्षेत्रों में स्थित विदेशी मदिरा (कम्पोजिट) दुकानों में विदेशी एवं देशी मदिरा के भण्डारकरण के लिए दुकान में अनुमोदित परिसर में पर्याप्त स्थान न होने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी की मांग पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा आवश्यक जाँचोपरान्त अनुज्ञप्तिधारी को दुकान के अनुमोदित परिसर से 100 मीटर की परिधि में स्थित गोदाम में विदेशी एवं देशी मदिरा के भण्डारकरण हेतु अनुज्ञा दे सकेगा। ऐसे गोदाम का, जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाए, विवरण अनुज्ञप्ति में प्रविष्टि किया जाएगा।
- (11-ख) यदि शहरी क्षेत्रों में स्थित विदेशी मदिरा (कम्पोजिट) दुकानों के अनुज्ञप्तिधारी को शर्त क्रमांक 10-क के अधीन अनुमोदित दुकान परिसर के साथ-साथ किसी गोदाम में विदेशी एवं देशी मदिरा के भण्डारकरण की अनुज्ञा दी गई हो, तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसे गोदाम में भण्डारित समस्त विदेशी एवं देशी मदिरा का नामपत्र वार (लेबल वाईज) दिन प्रतिदिन का सही हिसाब रखेगा। विदेशी एवं देशी मदिरा का गोदाम से अनुज्ञप्तिधारी की दुकान के परिसर तक परिवहन, प्राधिकृत अधिकारी, जो आबकारी उप-निरीक्षक के पद से भिन्न पद श्रेणी का न हो, द्वारा जारी किये गये पास के द्वारा किया जाएगा। गोदाम तथा दुकान के बीच विदेशी एवं देशी मदिरा के अंतरण को दुकान तथा गोदाम में रखी गई स्टॉक-पुस्तिकाओं में स्पष्टतः दर्शित किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी विदेशी एवं देशी मदिरा का गोदाम से विक्रय नहीं करेगा।
12. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञाप्त परिसर में नियमानुसार एवं निर्देशानुसार अहाता संचालन की व्यवस्था करावेगा।
13. प्लेसमेंट एजेंसी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में नियोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और छुआछुत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो।
14. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी किसी भी व्यक्ति को निर्धारित मात्रा से अधिक विदेशी/देशी मदिरा नहीं बेचेगा।
15. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को मदिरा विक्रय नहीं की जायेगी, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या पदधारी, जो वर्दी में हो।
16. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी द्वारा किसी भी दशा में बोटलों या उनके लेबिलो, सुरक्षा होलोग्राम/चोरीरोधक ढक्कनों या मुहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना पूर्ण रूप से निषिद्ध है।
17. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी अनुज्ञाप्त परिसर में कोई भी रंग सुगंधि, होलोग्राम, कैप्सूल, मुहर या कोई हानिकर सामग्री नहीं रखेगा।
18. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी के लिए दुकान की गद्दी पर या उस स्थान से 5 फीट के भीतर जहां विक्रय के लिए विदेशी/देशी मदिरा भण्डारित की गई है, पानी का रखना पूर्ण रूप से निषिद्ध है।
19. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी परिसर की समुचित देख-रेख और सफाई के लिए, उसमें नालियों आदि का कृमिनाशक पदार्थ से साफ किया जाना सम्मिलित है, उत्तरदायी होगा।
20. पर्यावरण एवं साफ-सफाई को ध्यान में रखते हुए विदेशी/देशी मदिरा दुकान के अहाता में प्रतिबंधित डिस्पोजेबल ग्लास एवं पानी के पाऊच का उपयोग/विक्रय प्रतिषिद्ध रहेगा।
21. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी और उसके परिवार के द्वारा उस परिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग, आवास के स्थान के रूप में नहीं किया जायेगा।

22. अनुज्ञप्तिधारी/प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या फुसलाना पूर्ण रूप से निषिद्ध है, द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी पूर्ण रूप से निषिद्ध है।
23. अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञापन की समाप्ति पर अतिशेष स्टॉक के निपटारे के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा जिसे छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उप नियम (6) के अंतर्गत विदेशी मदिरा का एवं सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक 25 के अंतर्गत देशी मदिरा का निपटारा किया जायेगा।
24. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए एफ.एल. 3, एफ.एल.3(क) एफ.एल. 4, एफ.एल. 4 (क) अथवा एफ.एल. 5/एफ.एल.5(क) अनुज्ञप्तिधारी को भी विदेशी मदिरा विक्रय करेगा।
- किन्तु विदेशी/देशी मदिरा एल.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट) फुटकर दुकान से एफ.एल.3, एफ.एल.3(क), एफ.एल. 4 एवं एफ.एल. 4 (क) अनुज्ञप्तिधारियों के लिए लैंडिंग प्राइज रुपये ...../- प्रतिपेटी तक के विदेशी मदिरा स्प्रिट का परिवहन प्रतिषिद्ध रहेगा।
25. अनुज्ञप्तिधारी/प्लेसमेंट एजेंसी/प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाये गये नियम (सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक 2 क एवं 2 ख को छोड़कर) और अनुज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं निर्बन्धनों तथा राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/कलेक्टर/उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा सूचित किन्हीं विशेष शर्तों/आदेशों/निर्देशों से आबद्धकर होगा।

तारीख : .....  
जिला : .....

अनुज्ञापन प्राधिकारी

8. प्रारूप "एफ.एल.-1(ख)" के स्थान पर, निम्नानुसार नवीन प्रारूप "एफ.एल.-1(ख-अहाता)" प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

प्रारूप  
नियम-3(ख)

एफ.एल.1 (ख-अहाता)

अनुज्ञप्ति संख्या ..... वर्ष ..... स्थान ..... जिला - .....  
वार्षिक लायसेंस फीस रुपये ..... एफ.एल.1 (ख-अहाता) की अनुज्ञप्ति फीस एक मुश्त पटाई जाने पर अनुज्ञप्ति जारी की जाती है।

शर्तें

- (1) अनुज्ञप्तिधारक, अनुज्ञप्ति एफ.एल.-1 (घघ) में उल्लेखित अनुज्ञप्ति परिसर के संलग्न अहाते में विदेशी मदिरा का उपभोग अनुज्ञात करेगा।
- (2) अनुज्ञप्तिधारक, अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी भी परिस्थिति में अनुज्ञप्ति परिसर में परिवर्तन नहीं करेगा।
- (3) अनुज्ञप्तिधारक, अहाते में केवल उसी विदेशी मदिरा का उपभोग अनुज्ञात करेगा जो कि ..... स्थित मदिरा दुकान से, जिससे कि अहाता संलग्न है, विक्रय की गई है।
- (4) अनुज्ञप्तिधारक, देशी मदिरा या मादक द्रव्य का अनुज्ञप्त परिसर में उपभोग अनुज्ञात नहीं करेगा।
- (5) अनुज्ञप्तिधारक, इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्त परिसर में न तो विदेशी मदिरा का स्टॉक ही करेगा और न ही विक्रय करेगा।
- (6) अनुज्ञप्तिधारक, उपभोक्ताओं को युक्तियुक्त सुविधाएँ यथा-खानपान, एयरकूल्ड/एयर कंडीशन तथा स्वच्छ वातावरण आदि सुविधाएँ प्रदान करेगा। इस हेतु वह अन्य विभागों से आवश्यक लायसेंस जैसे (FSSAI) आदि प्राप्त करेगा। किन्तु गाना, नाचना, कोलाहल मचाना या उच्छृंखल व्यवहार अनुज्ञात नहीं करेगा।
- (6)(क) पर्यावरण एवं साफ-सफाई को ध्यान में रखते हुए अहातों में प्रतिबधित डिस्पोजेबल ग्लास एवं पानी के पाऊच का उपयोग/विक्रय प्रतिषिद्ध रहेगा।
- (7) उस दशा में जब एफ.एल. 1(घघ) अनुज्ञप्ति, जिससे इस अनुज्ञप्ति के अधीन अहाता संलग्न है, कलेक्टर द्वारा निलंबित, रद्द या प्रत्याहरित कर दी जाती है तो यह अहाता अनुज्ञप्ति भी तत्काल, यथास्थिति निलंबित, रद्द या प्रत्याहरित कर दी गई समझी जाएगी।

- (8) अनुज्ञप्तिधारक, संबंधित मदिरा दुकान के खुलने एवं बंद होने के मध्य ही अहाता का संचालन करेगा तथा ऐसे समस्त दिवसों में अहाता का संचालन बंद रखेगा, जैसा कि अनुज्ञप्ति एफ.एल.-1 (घघ) की शर्त क्रमांक 16 में उल्लेखित है।
- (9) अनुज्ञप्तिधारक, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और छुआछुत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो।
- (10) अनुज्ञप्तिधारक, सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त क्रमांक दो, तेरह, सत्ताईस तथा तीस को छोड़कर अन्य सभी शर्तों द्वारा आबद्ध होगा।
- (11) इस अनुज्ञप्ति की किसी शर्त, या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के किसी उपबन्ध अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए किस आदेश के उल्लंघन पर यह अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित अथवा रद्द की जा सकेगी।

तारीख - .....

अनुज्ञापन प्राधिकारी

जिला- .....

9. प्रारूप "एफ.एल.-1(ख-अहाता)" के पश्चात् निम्नानुसार नवीन प्रारूप "एफ.एल.-1(ख-कम्पोजिट अहाता)" प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

प्रारूप  
नियम-3(ख)

एफ.एल.1 (ख-कम्पोजिट अहाता)

अनुज्ञप्ति संख्या ..... वर्ष ..... स्थान ..... जिला - .....  
वार्षिक लायसेंस फीस रुपये ..... एफ.एल.1ख (कम्पोजिट अहाता) की अनुज्ञप्ति फीस, एक मुश्त पटाये जाने उपरान्त यह अनुज्ञप्ति जारी की जाती है।

शर्तें

- (1) अनुज्ञप्तिधारक, अनुज्ञप्ति एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट) में उल्लेखित अनुज्ञप्ति परिसर के संलग्न अहाते में विदेशी मदिरा का उपभोग अनुज्ञात करेगा।
- (2) अनुज्ञप्तिधारक, अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी भी परिस्थिति में अनुज्ञप्ति परिसर में परिवर्तन नहीं करेगा।
- (3) अनुज्ञप्तिधारक, अहाते में उसी विदेशी एवं देशी मदिरा का उपभोग अनुज्ञात करेगा जो कि .....स्थित मदिरा दुकान से, जिससे कि अहाता संलग्न है, विक्रय की गई है।
- (4) अनुज्ञप्तिधारक, इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्त परिसर में न तो विदेशी/देशी मदिरा का स्टॉक ही करेगा और न ही विक्रय करेगा।
- (5) अनुज्ञप्तिधारक, उपभोक्ताओं को युक्तियुक्त सुविधाएँ यथा-खानपान, एयरकूल्ड/एयर कंडीशन तथा स्वच्छ वातावरण आदि सुविधाएँ प्रदान करेगा। इस हेतु वह अन्य विभागों से आवश्यक लायसेंस जैसे (FSSAI) आदि प्राप्त करेगा। किन्तु गाना, नाचना, कोलाहल मचाना या उच्छृंखल व्यवहार अनुज्ञात नहीं करेगा।
- (5)(क) पर्यावरण एवं साफ-सफाई को ध्यान में रखते हुए अहातों में प्रतिबंधित डिस्पोजेबल ग्लास एवं पानी के पाऊच का उपयोग/विक्रय प्रतिषिद्ध रहेगा।
- (6) उस दशा में जब एफ.एल.-1(घघ-कम्पोजिट) अनुज्ञप्ति, जिससे इस अनुज्ञप्ति के अधीन अहाता संलग्न है, कलेक्टर द्वारा निलंबित, रद्द या प्रत्याहरित कर दी जाती है तो यह अहाता अनुज्ञप्ति भी तत्काल, यथास्थिति निलंबित, रद्द या प्रत्याहरित कर दी गई समझी जाएगी।
- (7) अनुज्ञप्तिधारक, संबंधित मदिरा दुकान के खुलने एवं बंद होने के मध्य ही अहाता का संचालन करेगा तथा ऐसे समस्त दिवसों में अहाता का संचालन बंद रखेगा, जैसा कि अनुज्ञप्ति एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट) की शर्त क्रमांक 9 में उल्लेखित है।
- (8) अनुज्ञप्तिधारक, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और छुआछुत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो।
- (9) अनुज्ञप्तिधारक, सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त क्रमांक दो, तेरह, सत्ताईस तथा तीस को छोड़कर अन्य सभी शर्तों द्वारा आबद्ध होगा।

- (10) इस अनुज्ञप्ति की किसी शर्त, या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के किसी उपबन्ध अथवा उसके अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए किस आदेश के उल्लंघन पर यह अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित अथवा रद्द की जा सकेगी।

तारीख - .....  
जिला - .....

अनुज्ञापन प्राधिकारी

10. उक्त संशोधन दिनांक 01-04-2020 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**ए.पी. त्रिपाठी**, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 7 मार्च 2020

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-18/2020/वाक(आब)/पांच (10). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 18क तथा धारा 62 की उप धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (छ) और (ज) तथा उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करता है अर्थात् :-

### संशोधन

1. उक्त नियमों -

नियम 8 (घ) के स्थान पर निम्नलिखित नियम 8(घ) प्रतिस्थापित किया जाता है अर्थात् नियम 8 (घ) दिनांक 01-04-2020 से देशी/विदेशी मदिरा के लिए वेयर हाउस से मदिरा प्रदाय पर ड्यूटी की दरें नीचे सारणी में दर्शाये अनुसार होगी :-

### सारिणी

क्रं.	मदिरा का प्रकार	वर्ष 2020-21 के लिये निर्धारित ड्यूटी दर
1.	देशी मदिरा :- मसाला - 25.0 UP प्लेन - 50.0 UP	रुपये 320/- प्रति प्रूफ लीटर
2.	विदेशी मदिरा (स्प्रिट) :- विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की ड्यूटी दर की गणना वर्ष 2020-21 में विदेशी मदिरा की भण्डागार प्रदाय दर प्रति पेटी (काउंटरवेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) निम्नानुसार होगी :-	
	1. रुपये 950/- तक	रुपये 350/- प्रति प्रूफ लीटर
	2. रुपये 951/- से 1250/- तक	रुपये 550/- प्रति प्रूफ लीटर
	3. रुपये 1251/- से 1850/- तक	रुपये 660/- प्रति प्रूफ लीटर
	4. रुपये 1851/- से 2400/- तक	रुपये 800/- प्रति प्रूफ लीटर
	5. रुपये 2401/- से 3500/- तक	रुपये 900/- प्रति प्रूफ लीटर
	6. रुपये 3501/- से 4500/- तक	रुपये 950/- प्रति प्रूफ लीटर
	7. रुपये 4501/- से 6500/- तक	रुपये 1000/- प्रति प्रूफ लीटर
	8. रुपये 6501/- से 8500/- तक	रुपये 1050/- प्रति प्रूफ लीटर
	9. रुपये 8501/- से 11,000/- तक	रुपये 1100/- प्रति प्रूफ लीटर
	10. रुपये 11,001/- और उससे अधिक	रुपये 1150/- प्रति प्रूफ लीटर

3.	बीयर (माल्ट) मदिरा:- प्रति बल्क लीटर भण्डागार प्रदाय दर (काउंटर वेलिंग ड्यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) (1) रुपये 75/-प्रति ब.ली. तक (2) रुपये 76/- से 100/- प्रति ब.ली. तक (3) रुपये 101/- प्रति ब.ली. एवं उससे अधिक	ड्यूटी दर  (1) रुपये 90/- प्रति ब.ली. (2) रुपये 100/- प्रति ब.ली. (3) रुपये 150/-प्रति ब.ली.
4.	सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों/उनके संस्थाओं/क्लबों के लिये :-	
	(क) विदेशी मदिरा (स्पिरिट)	रुपये 30/- प्रति प्रूफ लीटर
	(ख) बीयर (माल्ट मदिरा)	रुपये 8/- प्रति बल्क लीटर

2. उक्त दरें दिनांक 01-04-2020 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 7 मार्च 2020

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-21/2020/वा.क.(आब.)/पांच (11). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, "छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995" में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

### संशोधन

1. उक्त नियमों में -

- (1) छत्तीसगढ़ देशी स्पिरिट नियम, 1995 में जहाँ-जहाँ शब्द "सी.एस.2(घघ)" आया है, के पश्चात् शब्द "सी.एस.2(घघ-कम्पोजिट)" एवम् शब्द "सी.एस.2 (ग-अहाता)" तथा शब्द "सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता)" जोड़ा जावे।
- (2) प्रारूप "सी.एस.-2(घघ)" के पश्चात् प्रारूप "सी.एस.-2(घघ-कम्पोजिट)" एवम् प्रारूप "सी.एस.2 (ग-अहाता)" तथा "सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता)" अंतःस्थापित किया जावे।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2020 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 7 मार्च 2020

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-22/2020/वा.क.(आब.)/पांच (12). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, "छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996" में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

### संशोधन

1. उक्त नियमों में -

- (1) छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के अंतर्गत नियमों में जहाँ-जहाँ शब्द "एफ.एल.1(घघ)" आया है के पश्चात् शब्द "एफ.एल.1(घघ-कम्पोजिट)", शब्द "एफ.एल.1(ख-अहाता)" एवं "एफ.एल.1(ख-कम्पोजिट अहाता)" जोड़ा जावे।
- (2) प्रारूप "एफ.एल.1(घघ)" के पश्चात् प्रारूप "एफ.एल.1(घघ-कम्पोजिट)" एवम् प्रारूप शब्द "एफ.एल.1(ख-अहाता)" एवं "एफ.एल.1(ख-कम्पोजिट अहाता)" अंतः स्थापित किया जावे।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2020 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 7 मार्च 2020

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-20/2020/वा.क.(आब.)/पांच (13). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (छ) (ज) एवं (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा "सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त" में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

### संशोधन

1. उक्त नियम में :-

शब्द "एफ.एल.-1(घघ)" के पश्चात् एवम् "सी.एस.2" के पूर्व शब्द "एफ.एल.1 (घघ-कम्पोजिट)" एवम् शब्द "एफ.एल.1(ख-कम्पोजिट अहाता)" तथा शब्द "सी. एस.-2 (घघ)" के पश्चात् एवम् शब्द "सी.एस.2(ङ)" के पूर्व शब्द "सी. एस.-2(घघ-कम्पोजिट)" एवम् शब्द "सी.एस.2 (ग-अहाता)" तथा शब्द "सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता)" अंतः स्थापित किया जावे।

2. उक्त संशोधन दिनांक 01-04-2020 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.